

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - चतुर्थ

दिनांक -15- 10-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज तोताराम एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे ।

संजय -

मतलब यह कि सन् 1857 में प्लासी की लड़ाई नहीं, प्रथम स्वतंत्रता

संग्राम हुआ था। प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई थी। सौ वर्ष,

जनाब कहाँ खा गए?

प्रकाश और आजादी की लड़ाई झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों में हुई

थी, न कि सिराजुद्दौला और अहिल्याबाई में। अहिल्याबाई झाँसी

की रानी भी नहीं थी, वह तो इंदौर के होलकर वंश की रानी थी।

एक लड़का: ठीक है मैंने भी यही लिखा है।

दूसरा लड़का: मैंने भी लिखा है।

तीसरा लड़का: मैंने भी

रमेश पर कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स फिर भी आ जाएँगे।

चालीस न सही, तीस सही।

राजेन्द्र हाँ, तीस न सही तो बीस सही। बीस न सही तो गोल-गोल अंडा तो

कहीं गया ही नहीं।

रमेश (चिढ़कर) अंडा आएगा तुम्हारा।

राजेन्द्र यह तो तब पता लगेगा, जब रिजल्ट आएगा कि किसका अंडा आता

है, हमारा या तुम्हारा? बच्चू, तुमने तो वही बात कर दी ' कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।' शिवाजी की मातृभूमि मेवाड़ नहीं, महाराष्ट्र है। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप की मातृभूमि है। चेतक उनका घोड़ा था।

प्रकाश बाबर से तो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, शिवाजी की लड़ाई तो बाबर के परपोते के भी पोते औरंगजेब से हुई थी। भामाशाह भी महाराणा प्रताप के समय में हुए थे, शिवाजी के नहीं। और भामाशाह ने प्रताप की धन से सहायता की थी, न कि शिवाजी ने भामाशाह की।

गृहकार्य

1. संसार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है?

(क) असम में (ख) शिलाँग में

(ग) चेरापूँजी में (घ) ढाका में

2- संसार का सबसे बड़ा नगर है

(क) मुंबई (ख) कोलकाता

(ग) न्यूयार्क (घ) पेरिस

3- लघु उत्तरीय प्रश्न: ।।

(क) आपको यह एकांकी कैसा लगा?

(ख) क्या आप अपना गृह-कार्य प्रतिदिन करते हैं?

(ग) इतिहास विषय की पढ़ाई आप किस प्रकार करते हैं?

(घ) इस एकांकी का कोई अन्य शीर्षक बताइए।

4-दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:

(क) इस एकांकी में ' तोताराम' किसे कहा गया है?

(ख) परीक्षा में दिनों में ही पढ़ना उचित क्यों नहीं होता?

(ग) ' हम तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं', यह कथन किसने और किससे कहा?

(घ) रमेश के द्वारा रटे जाने पर क्या परिणाम होता है?

(ङ) ' यार, हम तो उनसे अपने उत्तर मिला रहे हैं। यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा?

(च) नियमित रूप से पढ़ना छात्रों के लिए क्यों लाभकारी है?

(छ) इस एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है?

5-. सोचिए और बताइए:

विद्यार्थी जीवन में नियमित रूप से पढ़ने को लेकर क्या कोई कहानी अथवा एकांकी आपने पढ़ी है?